

प्रेस नोट

दिनांक 10.11.2022

सराहनीय कार्य थाना मुंशीगंज पुलिस व स्वाट टीम अमेठी

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, कुल 06 अवैध शस्त्र, 03 कारतूस, 05 अदद अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.11.2022 को प्र0नि0 श्री शिवाकान्त पाण्डेय थाना मुंशीगंज मय हमराही व निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा स्वाट टीम प्रभारी अमेठी मय हमराही द्वारा तलाश/वांछित, संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन चेकिंग के दौरान मुंशीगंज चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति ग्राम दरपीपुर में झाड़ियों में बने एक खण्डहर मकान में अवैध असलहा बना रहे है । उक्त सूचना पर थाना मुंशीगंज व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचकर घेर कर अभियुक्त अरुण कुमार मौर्या पुत्र गंगाराम मौर्य नि0 मुराइन का पुरवा मजेर हारीमऊ थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 21 वर्ष को समय करीब 06:50 बजे सुबह में गिरफ्तार किया गया । एक अभियुक्त मौके का फायदा उठा कर भाग गया । गिरफ्तार अभियुक्त अरुण कुमार मौर्या के कब्जे से 05 तमंचा 01 कारतूस 315 बोर, 01 तमंचा 02 कारतूस 12 बोर व 05 अदद अर्द्ध निर्मित तमंचा के साथ 26 अदद लोहे की रिपिट, 52 अदद लोहे की कील, 08 अदद स्प्रिंग, 08 लकड़ी के टुकड़े, 02 अदद रेती बड़ी, 01 अदद रेती छोटी, 01 अदद पंखा, 01 अदद बैट्री, 02 अदद पेंचकस, 03 लोहे का राड़, 05 अदद तमंचे पर लगाने की लोहे की पट्टी, 01 अदद सोल्डर, 01 अदद हथौड़ी, 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद निहाई, अवैध शस्त्र बनाने की भट्टी आदि भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुआ ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त अरुण कुमार मौर्या ने बताया कि भागने वाला अभियुक्त सुमित मिश्रा पुत्र अज्ञात निवासी सरेसर उत्तर गांव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी है तथा यह भी बताया कि मैं और सुमित मिश्रा अवैध तमंचा बनाते हैं आगामी निकाय चुनाव में तमंचो की अधिक मांग होने के कारण हम लोग मिलकर इसी खण्डहर में तमंचा बना रहे थे । थाना मुंशीगंज द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान:-ग्राम दरपीपुर खण्डहर मकान **दिनांक:-** 10.11.2022 **समय:-** 06:50 बजे सुबह

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- अरुण कुमार मौर्या पुत्र गंगाराम मौर्य नि0 मुराइन का पुरवा मजेर हारीमऊ थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी । उम्र 21 वर्ष

फरार अभियुक्त का नाम व पता-

- सुमित मिश्रा पुत्र अज्ञात निवासी सरेसर उत्तर गांव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।

बरामदगी- (कुल 06 अदद अवैध शस्त्र, 03 कारतूस व 05 अदद अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र)

1. 05 अदद तमंचा 01 कारतूस 315 बोर
2. 01 तमंचा व 2 कारतूस 12 बोर
3. 05 अदद अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र
4. **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण जैसे-** 26 अदद लोहे की रिपिट, 52 अदद लोहे की कील, 08 अदद स्प्रिंग, 08 लकड़ी के टुकड़े, 02 अदद रेती बड़ी, 01 अदद रेती छोटी, 01 अदद पंखा, 01 अदद बैट्री, 02 अदद पेंचकस, 03 लोहे का राड़, 05 अदद तमंचे पर लगाने की लोहे की पट्टी, 01 अदद सोल्डर, 01 अदद हथौड़ी, 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद निहाई आदि ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 230/22 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुंशीगंज

1. प्र0नि0 शिवाकान्त पाण्डेय 2. उ0नि0 पारस नाथ यादव 3. उ0नि0 विधान चन्द्र यादव 4. का चन्दन कनौजिया 5. का0 दिलीप कुमार

स्वाट टीम -

1. धीरेन्द्र वर्मा स्वाट टीम प्रभारी 2. हे0का0 मतलूब अहमद 3. का0 नरेन्द्र मिश्रा 4. का0 अवनीश 5. का0 शिवराम 6. का0 कपिल सिंह